

सूचना पत्र 3

लैंगिक समानता और सम्मान का प्रचार करना

ऑस्ट्रेलियाई समाज की नींव हर किसी के लिए निष्पक्षता, अवसर और विकल्प पर आधारित है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की कदर करते हैं, और हर किसी को हिंसा-मुक्त जीवन व्यतीत करने का अधिकार है।

लैंगिक समानता हासिल करने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही के दशकों में लैंगिक समानता हासिल करने की ओर महत्वपूर्ण प्रगति की है।

ऑस्ट्रेलिया में लैंगिक समानता

ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया की सरकारें सम्मान तथा समानता की संस्कृतियों का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों, कार्यस्थलों, व्यापारों, और धार्मिक समूहों के साथ सहभागिता में काम कर रही है ताकि घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा (Domestic, Family and Sexual Violence - DFSV) की रोकथाम करने में सहायता दी जा सके।

साउथ ऑस्ट्रेलिया विश्व में चौथा और ऑस्ट्रेलिया में पहला ऐसा स्थान था जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। यह विश्व में वह पहला स्थान भी था जहाँ महिलाओं को संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ने और मार्गदर्शकों तथा निर्णयकर्ताओं के तौर पर हमारे समाज को आकार देने का अवसर दिया।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के कानून अवसर की समानता का प्रचार करते हैं, भेदभाव की रोकथाम करते हैं, पक्षपात को हतोत्साहित करते हैं, और लोगों को हमारे सार्वजनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। इन कानूनों ने महिलाओं को यौन भेदभाव और यौन उत्पीड़न से भी कानूनी संरक्षण दिया है।

इन कानूनों का अर्थ है कि महिलाओं के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

- अपनी खुद की आमदनी कमा कर और इसे नियंत्रित करके वित्तीय तौर पर स्वतंत्र होने का;
- किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने का;
- वैतनिक अभिभावकीय अवकाश (पेड पेरेंटल लीव) जैसी पात्रताओं के माध्यम से काम और देखरेख करने की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का; और
- यौन भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त होकर जीवन जीने का।

ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को योगदान देने और समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। महिलाएँ कार्यबल के सभी क्षेत्रों में भाग लेती हैं और ऐसा करते हुए अन्य महिलाओं तथा लड़कियों को आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं।

महिलाओं को मार्गदर्शकों तथा निर्णयकर्ताओं के तौर पर अपने सामर्थ्य तक पहुँचने के लिए सक्षम बनाना भी लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अहम है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपनी समितियों और परिषदों में महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को बनाए रखकर मिसाल के तौर पर इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है।

खेलकूद में महिलाओं की उपलब्धियों का पूरे ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाया जाता है और महिलाओं के खेलों की लोकप्रियता का बढ़ना जारी है, विशेषकर विशिष्ट AFLW, महिला खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल लीग की शुरुआत से लेकर।

ये अधिकार और प्रत्याशाएँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर किसी व्यक्ति पर लागू होती हैं।

लैंगिक असमानता और घरेलू, पारिवारिक एवं यौन हिंसा (Domestic, Family and Sexual Violence - DFSV)

अनुसंधान दर्शाता है कि कई भेदभावपूर्ण और नुकसानदायक विचारधाराएँ DFSV में योगदान देती हैं:

- पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता;
- पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में प्रत्याशाएँ और निश्चित विचार; और
- सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली हिंसा स्वीकार करती हैं।

इन विचारधाराओं के कारण महिलाओं के साथ उनके रिश्तों और समाज में कम इज्जत और सम्मान के साथ व्यवहार किया जा सकता है।

इन विचारधाराओं को चुनौति देना और इससे जुड़े व्यवहारों को बदलना लैंगिक समानता हासिल करने और DFSV को कम करने के लिए अहम है।

मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाली प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएँ और व्यवहार सीखे जाते हैं परन्तु इन्हें चुनौति दी जानी चाहिए और इन्हें बदला जा सकता है।

व्यक्ति-विशेष और समुदाय नुकसानदायक विचारधाराओं को चुनौति दे रहे हैं और निम्नलिखित कदम उठाकर अनुचित और अपमानजनक व्यवहार की रोकथाम कर रहे हैं:

- ऐसे प्रस्तावों से जुड़कर जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्मान का प्रचार करते हैं;
- समानता और सम्मान को बढ़ावा देने वाले कदम उठाकर;
- DFSV के प्रति जागरूकता का निर्माण करके;
- DFSV के बारे में चर्चा करके; तथा
- DFSV की रोकथाम करने के लिए अपने काम को मज़बूत बनाने हेतु सहभागिताओं का निर्माण करके और बदलाव के लिए वकालत करके।

हम में से हर किसी को भूमिका निभानी है। मिलकर हम DFSV की रोकथाम करने में सहायता दे सकते हैं।

यह DFSV विषय के 4 सूचना पत्रों में से एक सूचना पत्र है। लैंगिक समानता और सम्मान के बारे में और अधिक जानने के लिए सूचना पत्र 4 देखें। DFSV की पहचान करने और इसपर प्रतिक्रिया करने से सम्बन्धित अधिक जानकारी सूचना पत्रों 1 और 2 में उपलब्ध है।



Government
of South Australia



MCCSA
Multicultural Communities Council of South Australia



Women's Safety Services SA

**BREAK
THE
CYCLE**
OF DOMESTIC ABUSE